



माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

CIN No. U35100MH1934GOI002079

Contact No. : 022-23764108 / 4174

सत्यापन फार्म / ATTESTATION FORM

उम्मीदवार द्वारा स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरा जाए

To be filled in by the candidate in his own handwriting

विस्तृत प्रमाणीकरण

DETAILED VERIFICATION

अपना नवीनतम हस्ताक्षर किया
पासपोर्ट आकर का फोटो चिपकायें

(5cm x 7cm)

Affix self signified
passport size recent
Photograph

1. सत्यापन फार्म में झूठी सूचना देना किसी तथ्य को छिपाना पात्रता समझी जाएगी तथा उसके कारण उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझे जाने की संभावना है।

The furnishing of false information or suppression of any Factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the Government.

2. इस फार्म को भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार को नज़रबन्द, गिरफ्तार किया जाता है, उस पर मुकदमा चलाय जाता है, बन्दी, जुर्माना, दण्डित, विवर्जित, दोषमुक्त आदि किया जाता है, तो उसकी सूचना तत्काल सेप्टम (पी आर पी ओ) को अथवा उस अधिकारी को यथास्थिति भेजी जानी चाहिये, जिसको पहले सत्यापन फार्म भेजा गया है, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि वास्तविक सूचना छिपाई गई है।

If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted etc. subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form had been sent early, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.

3. यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल के दौरान यहाँ पता चलता है कि सत्यापन फार्म में झूठी सूचना दी गई है या किसी तथ्य को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

If the fact that false information has been suppression of any factual information in the attestation form comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to the terminated.

1.	पूरा नाम (साफ़ अक्षरों में) उपनामों सहित (यदि आपने अपने नाम या उपनाम में किसी समय कुछ बढ़ाया या घटाना है तो कृपया बताएं) NAME IN FULL (IN BLOCK CAPITALS) with aliases, if any (please indicate if you have added or dropped in any stage any part of your name or surname)	उपनाम / Surname	नाम / Name
2.	a) वर्तमान पूरा पता (अर्थात ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली / सड़क / मार्ग और नगर) तथा मोबाइल नं. Present Residential Address in full (i.e. Village, Thana & District, or House No. / Lane / Street /		

		Road & Town)	
	b)	वर्तमान निकट पुलिस स्टेशन का पता Address of the present Nearest Police Station	
	c)	प्राधिकारी का पूरा पता पिन कोड सहित (जैसे एसपी, डीएम, कमिश्नर, आदि) उनके न्यायाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम जो उपरोक्त 2(बी) के अंतर्गत उल्लेखित Complete address with Pin Code of the Authority (e.g. SP, DM, Commissioner, etc.) under whose jurisdiction the nearest police station as mentioned at 2(b) above falls	
3.	a)	घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना और जिला या मकान नं., गली / सड़क / मार्ग और नगर और जिले के मुख्यालय का नाम) Home address (Native Place) in full i.e. Village Thana & District or House No./ Lane / Street Road & Town & Name of District Headquarters)	
	b)	यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हैं तो उस देश में If originally a resident of Pakistan, the address in that country and the date of migration to Indian Union	

4. उन स्थानों का ब्यौरा (रहने की अवधियों सहित) जहाँ आप पिछले पांच वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। यदि विदेश (पाकिस्तान सहित) रहे हों तो उन स्थानों का ब्यौरा देना चाहिये जहाँ आप 12 वर्ष की आयु होने के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

Particulars of places (with periods of residence) where you have resided for more than ONE YEAR at a time during the preceding FIVE YEARS. In case of stay abroad (including PAKISTAN) particulars of all places where you have resided for more than ONE YEAR after attaining the age of 21 YEARS should be given).

तिथि से / From	तक / To	निवास स्थानों के पूरे पते (अर्थात् ग्राम, थाना और जिले या मकान नंबर, गली / सड़क / मार्ग और नगर) / Residential address in full (i.e. Village, Thana and District or House Number, Lane / Street / Road and Town	पिछले खाने में दिये गये स्थान के जिले के मुख्यालय का नाम / Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding column

5.	नाम राष्ट्रीय (जन्म से और/ या अधिवास से) Name Nationality by Birth & / or by Domicile	जन्म स्थान Place of Birth	व्यवसाय (यदि सेवा में हो तोह पूरा पदनाम और कार्यालय का पूरा पता दिया जाय Occupation (If employed give designation & Official Address	वर्तमान डाक का पता (यदि मृतक हो तो अंतिम पता) Present Postal Address (If dead give last address	घर का स्थायी पता Permanent / Native place Home Address
	पिता पूरा उपनामों सहित यदि कोई हो Father's Name in full aliases if any				
	माता / Mother				
	पत्नी / पति Wife / Husband				
	भाई / Brother (s)				
	बहनें / Sister (s)				

5.a) विदेश में पढ़ रहे /रह पुत्र (पुत्रों) और /या पुत्री (पुत्रियों) से सम्बंधित सूचना दी जाए
Information to be furnished with regard to son(s) and / or daughter(s) in case they are
studying / living in a foreign country.

नाम / Name	राष्ट्रीय (जन्म से और / या अधिवास से / Nationality (by birth and / or by domicile)	जन्म का स्थान / Place of birth	देश का नाम जहा पढ़ रहे / रह रहे हैं पूरा पता / Country in which studying / living with full address	पिछले कालम में दिए गये देश में जिस तारीख से पढ़ रहे हैं / Date from which studying / living in the country mentioned in previous column

6.	(क) (a)	राष्ट्रीयता Nationality	
7.	(क) (a)	जन्म की तारीख (इस्वी संवत् में) Date of Birth (in Christian era)	
	(ख) (b)	वर्तमान आयु Present Age	
	(ग) (c)	मैट्रिक के समय आयु Age at Matriculation	
8.	(क)	जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें यह स्थित है	

(a)	Place of Birth, District and State in which situated	
(ख)	आप किस जिले और राज्य के हैं	
(b)	District and State to which you belong	
(ग)	आपके पिता मूल रूप से किस जिले और राज्य के हैं	
(c)	District and State to which your father originally belongs	

9.	(क)	आपका धर्म	
	(a)	Your religion	
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित हैं? उत्तर हां या नहीं के रूप में दें। (यदि हाँ तो प्रासंगिक प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	(b)	Are you a member of a Scheduled Caste / Scheduled Tribe / OBC? Answer 'Yes or No' (If yes, attach certificate)	

10. विद्यालयों / महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से (अब तक) सभी शिक्षा प्राप्त करने के स्थान को दर्शित हुए शैक्षिक योग्यता:

All Educational qualification showing places of education with years in School and Colleges since 15th year of age (Till date):

स्कूल / कॉलेज का नाम और पूरा पता / Name of School / College with full address	प्रवेश का तारीख Date of Entering	छोड़ने की तारीख / Date of Leaving	परीक्षा उत्तीर्ण / सम्मिलित Examination Passed / Appearing

11.(क) क्या आप केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकार अथवा अर्ध स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी प्रतिष्ठान अथवा संस्थान में नियुक्त हैं अथवा कभी भी नियुक्त हुए? यदि हां नियोजन का तिथि सहित सम्पूर्ण विवरण दें:

(a) Are you holding or have any time held any appointment under the Central or State Government, Semi-Government or a Quasi-Government body or an autonomous body, or a public undertaking or a private firm or institution? If so give full particulars with dates or employments up-to-dates:

अवधि / Period		पद, परतिब्धियाँ तथा रोजगार का स्वरूप	नियुक्त का पूरा नाम व पता	पहली नौकरी छोड़ने का कारण
से / From	तक / To			

11.(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार / राज्य सरकार / भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या संचालित किसी उपक्रम, किसी स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय के अधीन थी, और आपका केन्द्रीय सिविल सेवार्यें (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के अधीन या किन्ही, इसी प्रकार के नियमों के अधीन एअ महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी थी तो क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गयी या जब आपकी सेवा को समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपने किसी मामले में आपके आचरण के लिए स्पष्टीकरण माँगा गया था?

(b) If the previous employment was under the Government of India / State Government/ an Undertaking owned or controlled by the Govt. of India or State Government / Autonomous body / University / local body and you had left service on giving a month notice under Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 or any similar corresponding rules where any disciplinary proceedings framed against you or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service, or at a subsequent date before your services actually terminated?

12.	(क)	क्या आप को कभी गिरफ्तार किया गया है? Have you ever been arrested	:	हैं / नहीं Yes / No
	(ख)	क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया है? Have you ever been prosecuted?	:	हैं / नहीं Yes / No
	(ग)	क्या आपको कभी नज़रबंद किया गया है? Have you ever been kept under detention?	:	हैं / नहीं Yes / No
	(घ)	क्या आप अभी बंदी बनाए गए हैं? Have you ever been bound down?	:	हैं / नहीं Yes / No
	(ङ)	क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया है? Have you ever been fined by a Court of Law?	:	हैं / नहीं Yes / No
	(च)	क्या आपको किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है? Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence?	:	हैं / नहीं Yes / No
	(छ)	क्या आप अभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए या किसी विश्वविद्यालय या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया	:	हैं / नहीं Yes / No

	गया है? Have you ever been debarred from any Examination or rusticated by any University or any other educational authority/ Institution?		
(ज)	क्या आपको कभी सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी किसी परीक्षा में बैठने/ चयन के लिए विवर्जित/ अयोग्य ठहराए गया है? Have you ever been debarred/ disqualified by any Public Service Commission/ Staff selection Commission for any of its examination/ selection?	:	है/ नहीं Yes / No
(झ)	इस सत्यापन फॉर्म को भरते समय क्या किसी न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है/ लंबित है? Is any case pending against you in any court of law at the time of filling up this Attestation Form?	:	है/ नहीं Yes / No
(ञ)	इस सत्यापन फॉर्म को भरते समय क्या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण/ संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है? Is any case pending against you in any University/ or any other educational authority/ Institution at the time of filling up this Attestation Form?	:	है/ नहीं Yes / No
(ट)	क्या सरकार के अधीन/ किसी प्रशिक्षण संस्थान से कार्य मुक्त/निष्कासित/प्रत्याहृत किया गया है? Whether discharged/ expelled/ withdrawn from any training institution under the Government or otherwise	:	है/ नहीं Yes / No

उपरोक्त किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि "हाँ" में हो तो मामला गिरफ्तार/ नजरबंद/ जुर्माना/ अपराधी/ कारावास/ सजा आदि के होने और/या इस फॉर्म को भरते असमय न्यायालय/विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में चल रहे मुकदमे से संबंधित पूर्ण विवरण दें।

If the answer to any of the above mentioned questions is "YES" give full particulars of the case/ arrest/ detention/ fine/ conviction/ sentence/ punishment etc. & or/ nature of the case pending in the Court / University/ Educational authority etc. at the time of filling up this form.

टिप्पणी/ Note: (1) कृपया इसका सत्यापन फॉर्म के ऊपर दी गई 'चेतावनी' को भी देखिए।

Please also see the warning at the top of this Attestation Form.

(2) यथास्थिति "हाँ" या "नहीं" को काट कर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग-अलग दिया

जाना चाहिए। Specific answers to each of the questions should be given by striking out 'Yes' or 'NO' as the case may be.

13. अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे दो व्यक्तियों के नाम दीजिए जी आपको जानते हों। Names of two responsible persons of your locality or two references to whom you are know	1.
	2.

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार सही एवं पूर्ण हैं। मुझे ऐसी किसी भी परिस्थिति की जानकारी नहीं है जी सरकार के अधीन रोजगार की मेरी उपयुक्तता से क्षति पहुँचती है। I certify that the foregoing information is correct & complete to the best of my knowledge & belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness or employment under Government.

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

Signature of candidate

दिनांक/Date

स्थान/ Place

पहचान प्रमाण पत्र/ IDENTITY CERTIFICATE
(प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)
Certificate to be signed by any one of the following

- i) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/Gazetted Officers of Central or State Government.
- ii) जिस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अथवा उसके माता-पिता/ संरक्षक सामान्यतः निवास करते हैं, वहाँ से संसद सदस्य अथवा राज्य विधान मण्डल के सदस्य/ Members of parliament or State Legislature belonging to the constituency of the candidate or his parent/ guardian/ officer.
- iii) सब ि विजनल मैजिस्ट्रेट/ अधिकारी; Sub-Divisional Magistrates/ officer
- iv) तहसीलदार अथवा नयाब/ उप तहसीलदार, जो कि मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत हैं/ Tehsildars or Naib/ Deputy Tehsildars authorized to exercise magisterial powers.
- v) उस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के प्रधानाचार्य/ मुख्य अध्यापक, जहां से उम्मीदवार ने अंत में शिक्षा प्राप्त की है/ Principal/ Head-Master of the recognized school/College/Institution where the candidate studied last.
- vi) ब्लॉक विकास अधिकारी/ Block Development Officer
- vii) पंचायत निरीक्षक/ Panchayat Inspector

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पुत्र/पुत्री श्री
..... को पिछले वर्षों महीनों से जनता हूँ और जहां तक मुझे
पता है और विश्वास है कि उसने जो ब्यौरा दिए हैं वह सही हैं।

Certified that I have know shri/ Smt.
/Kum..... Son/ Daughter of Shri
..... For last
..... yearsmonths & that to the best of my knowledge & belief the
particulars furnished by him/ her are correct.

दिनांक: हस्ताक्षर/ Signature:

Date पदनाम या हैसियत और मुहर
/ Designation Or Status & Seal

स्थान: पता Address

Place

कार्यालय द्वारा भरा जाने के लिए/ TO BE FILLED BY THE OFFICE

- i) नियुक्ति प्राधिकरण का नाम, पदनाम तथा पूरा पता
Name, Designation & Full Address of the appointing authority

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड Mazagon Dock Shipbuilders Limited
डॉकयार्ड रोड, माझगांव Dockyard Road, Mazagon
मुंबई Mumbai 400010

- ii) पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है Post for which the candidate is being considered

- iii) पी.सं. P.No -----